



DAILY RAILWAY CAPSULE

14/05/2018

One liners –


- चीनी मिलों द्वारा किसानों को दी जाने वाली गन्ना की बकाया राशि की समस्या को दूर करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को 5.5 रुपए प्रति कुंटल गन्ने की दर से वित्तीय सहायता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। कहा गया सहायता वास्तविक गन्ना पेरार्ड के आधार पर मिलों की तरफ से किसानों को सीधे भुगतान की जाएगी।
- 11 मई, 2018 को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों के लिए एक निवेश सहायता योजना 'रैतु बंधु' (किसानों का मित्र) की शुरुआत की। इस योजना को भारत के सभी राज्यों में पहली ऐसी पहल माना जा रहा है। 'रैतु बंधु' योजना के तहत, तेलंगाना के सभी किसान जिनके पास जमीन है, उन्हें प्रति वर्ष 8000 रुपये प्रति एकड़ का निवेश समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों की समीक्षा करने के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है। दो सदस्यीय समिति का नेतृत्व वी.के.अग्निहोत्री द्वारा किया जाएगा जो पूर्व राज्यसभा महासचिव हैं, जबकि अन्य सदस्य एस.आर.ढलेता होंगे जो कानून और न्याय मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव हैं।
- भारतीय नौसेना मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र की संयुक्त निगरानी आयोजित करने में शामिल हुई है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय नौसेना ने नौसेना ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनओपीवी), सुमेधा की 9 से 17 मई 2018 तक तैनाती की है। यह तैनाती भारतीय नौसेना के 'मिशन आधारित तैनाती' का एक हिस्सा है।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने अप्रैल, 2018 के दौरान पांच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों का निपटारा किया।
- 11 मई 2018 को, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री के.जे.अल्फोन्स के साथ दिल्ली में बैठक की।
- भारत के सबसे लंबे सड़क और रेलवे पुल 'बोगीबील पुल', जो असम में दिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है, का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में उद्घाटन किया जाएगा। बोगीबील पुल से संबंधित सिविल कार्य जुलाई 2018 तक समाप्त हो जाएगा। बिजली और सिग्नलिंग कार्य को पूरा करने के लिए दो और महीने लिए जाएंगे।
- 11 मई 2018 को भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति ने काले धन की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन आदि का अध्ययन करने का फैसला किया। समिति में 30 सदस्य शामिल हैं। इसने 2018-19 में कई मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की योजना बनाई है।

Science -

- वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हो, कहलाता है - कार्बनिक यौगिक
- हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को कहा जाता है - हाइड्रोकार्बन
- खुले श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है - एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन
- बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है - चक्रीय हाइड्रोकार्बन
- 'द्रव सोना' के नाम से जाना जाता है - पेट्रोलियम
- वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान बिन्दु संरचना सूत्र एवं रासायनिक गुण भिन्न हों, कहलाता है - समावयवी
- जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है - वर्जिलियस ने
- प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला कार्बनिक यौगिक था - यूरिया
- दूध का खट्टा होना उदाहरण है - किण्वन का
- जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग कर एक बड़ा अणु बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है - बहुलीकरण
- लकड़ी के मंजक आसवन से प्राप्त होता है - पायरोलिग्नियस अम्ल
- नार्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन हैं - चैन आइसोमर

SBI PO | MP SI

NEW BATCHES START



**OUR
BRANCHES**

INDORE -

PALASIYA

Cont.- 099779-44914

BHANWARKUA

Cont.- 083497-59425

BHOPAL -

**M.P.
NAGAR**

Cont.- 078693-74842

HARDA

Opp. GP Mall
Bus Stand Road

Cont.- 099263-93771

HOSHANGABAD -

Meenakshi Chowk
Above ICICI Bank

Cont.- 078693-74873

SIDHI -

Suchitra Complex
Amaha Tirana, SIDHI

Cont. - 7024144133

KHANDWA -

Grover Plaza
Anand Nagar

Cont.- 099777-02933

GUNA -

Kanha Heights
Above IO Bank

Cont.- 088892-89335

BILASPUR -

Amar Complex
Near Gandhi Chowk

Cont.- 093003-80700

REWA -

Ramagovind Palace
Sirmour Chowk

Cont.- 090396-52859

PIPARIYA -

Cement Road Near
ICICI Bank Pipariya

Cont. - 7869407010

PINNACLE CAREER INSTITUTE For Further Details Please Call Us On- 9039055453, 9977716716

Facebook: Pinnaclecareerinstitute

Website: www.Pinnacle.Edu.In H.O.: M.G.Road The Heritage 1st Floor, Indore